

Ref: Publication/2023-24

Date: September 21, 2023

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051

To,
BSE Limited
Department of Corporate Services - Listing
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

SYMBOL: SHIVALIK

SCRIP CODE: 539148

Subject : Newspaper Advertisement of the Addendum to the Notice of 45th Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find attached herewith copies of newspaper advertisements published in the Newspaper “The Financial Express” and “Vir Arjun (Dehradun)” on September 21, 2023, publishing the Addendum to the 45th Annual General Meeting ("AGM") of the Company scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 at 12 PM through VC / Other Audit-Visual Means.

The Addendum to the Notice is attached herewith for your reference and public dissemination which is self-explanatory. The Stakeholders are requested to take note of the same.

You are requested to take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Shivalik Rasayan Limited

Parul Choudhary
Company Secretary & Compliance Officer
ACS: 34854

Place: New Delhi

CIN: L74899DL1994PLC059009
 Website: <http://www.afsl.co.in> | Email: info@afsl.co.in
 Place: Mumbai
 Date: Monday, September 18, 2023

(Chairman & Executive Director)
 DIN: 01628855



MUTUAL FUNDS
Sahi Hai

HDFC Asset Management Company Limited
 CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay, Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676
 e-mail: hello@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund"), has approved the following Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options in the below-mentioned Scheme(s) / Plan(s) / Option(s) of the Fund and fixed **Monday, September 25, 2023** (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same as given below:

Name of the Scheme(s) / Plan(s) / Option(s)	Net Asset Value ("NAV") as on September 18, 2023 (₹ per unit)	Amount of Distribution (₹ per unit)
Plan(s) launched under HDFC Fixed Maturity Plans - Series 46:		
HDFC FMP 1861D March 2022 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.1303	0.1303
HDFC FMP 1861D March 2022 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1345	0.1345
HDFC FMP 1162D March 2022 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.1400	0.1400
HDFC FMP 1162D March 2022 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1437	0.1437
HDFC FMP 1876D March 2022 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.1224	0.1224
HDFC FMP 1876D March 2022 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1262	0.1262
HDFC FMP 1158D July 2022 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.1278	0.1278
HDFC FMP 1158D July 2022 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1357	0.1357
HDFC FMP 1406D August 2022 - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.1258	0.1258
HDFC FMP 1406D August 2022 - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1330	0.1330

Place: Chennai
 Date: 21-Sept-2023

K S Srinivasan
 Company Secretary



Shivalik Rasayan Limited

Registered Office: Village Kolhupani, P.O. Chandanwari, Dehradun, Uttarakhand-248007, India
 Corporate Office Address: 1506, Chiranjiv Tower 43, Nehru Place New Delhi-110019, India
 Ph: 011-47589500, CIN: L24237UR1979PLC005041
 Website: www.shivalikrasayan.com, E-mail: cs@shivalikrasayan.com

ADDENDUM TO THE NOTICE OF 45TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members,
 This is in reference to the Notice of 45th Annual General Meeting dated August 08, 2023 ("AGM Notice") of Shivalik Rasayan Limited ("the Company") to be held on Friday, September 29, 2023 at 12 PM through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) facility, for seeking approval for matters contained in the said notice. The said notice has been duly dispatched to the shareholders of the Company as per the applicable laws.
 The Company through this addendum wishes to bring to the notice of the Shareholders of the Company that Dr. Akshay Kant Chaturvedi has been resigned from the Board with effect from September 18, 2023 and he would not offer himself for re-election as an Executive Director at the AGM. Accordingly, an Ordinary Resolution, numbered 04 is no longer applicable and will not be put forward for consideration and approval by the Shareholders at the AGM.
 Accordingly, the Company has issued addendum to the Notice of 45th AGM.
 All other particulars and details as mentioned in the AGM Notice shall remain unchanged. The addendum shall be read in conjunction with the AGM Notice dated August 08, 2023 together with explanatory statement. This addendum is also available on the Company's website viz. www.shivalikrasayan.com, and on the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.
 For Shivalik Rasayan Limited
 Sd/-
 Parul Choudhary
 (Company Secretary)
 Place: New Delhi
 Date: September 20, 2023



MANGALAM CEMENT LIMITED

P. O. ADITYA NAGAR - 326 520, MORAK, DISTT. KOTA (RAJ.)
 Tel: 07459-233127 • Fax: 07459-232036
 E-mail: shares@mangalamcement.com • Website: www.mangalamcement.com
 CIN: L26943RJ1976PLC001705

NOTICE FOR POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING DETAILS

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ('Act') (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ('Rules'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') and the Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ('SS-2'), each as amended, and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') for holding General Meetings/conducting Postal Ballot process through e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020 read with General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, No. 22/2020 dated 15th June, 2020, No. 33/2020 dated 28th September, 2020, No. 39/2020 dated 31st December, 2020, No. 10/2021 dated 23rd June, 2021, No. 20/2021 dated 8th December, 2021, No. 3/2022 dated 5th May, 2022 and No. 11/2022 dated 28th December, 2022 (collectively the 'MCA Circulars'), and other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), to the Members of Mangalam Cement Limited (the 'Company') in respect of passing the special resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 8th August, 2023 through **Postal Ballot by remote e-voting process only ('remote e-voting')**. Pursuant to the provisions of section 110 of the Act read with the Rules and the MCA Circulars, your Company has an option for the above mentioned resolutions, to seek the approval of the Members through Postal Ballot (via remote e-voting only), instead of getting the same passed through Postal Ballot.

	0.230*
37.944	
10.9761	0.0500#
12.3259	0.1000#
12.1187	0.1000#
13.4717	0.1500#
11.6565	0.3500#
13.6130	0.5000#
11.7727	0.1000#
12.4871	
14.8431	0.3200#
16.1176	
10.4471	0.1780#
10.2868	0.1818#
18.2862	1.2000#
18.7951	
17.7016	1.1500#
18.7741	1.2000#
10.3197	0.1466#
10.6496	0.1670#
10.2874	0.1215#
10.3418	0.1597#

an(s) / Option(s) is ₹ 10/-

वनाग्नि व मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी आई: वन मंत्री सुबोध उनियाल

एसीएस राधा रतूड़ी ने सचिवालय में पैथोलॉजीकल कलेक्शन सेन्टर का शुभारम्भ किया

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । भाजपा मुख्यालय में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विगत वर्षों के मुकाबले प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएँ एक चौथाई रह गयी है और मानव वन्यजीव संघर्ष में होने वाली जनहानि भी 61 फीसदी तक कम हो गयी है। साथ ही बताया कि अब हमारा फोकस जनसहभागिता से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन पर है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित सरकार के मंत्रियों की पत्रकार वार्ता श्रृंखला के 6म में आज वन, पर्यावरण, तकनीकी शिक्षा, भाषा एवं निर्वाचन मंत्री श्री उनियाल ने अपने विभागीय कार्यों की विस्तार से जानकारी दी है उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि इस तरह की आम आदमी से पुनः जोडा जाये ताकि वह अपने आपसाफ के वन, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखते हुए उससे अपनी आजीविका में वृद्धि करके व वनाग्नि राज्य के लिए बड़ी समस्या थी जिसके लिए हमारे द्वारा वन



प्रबंध समिति ग्राम स्तर पर बनाई गयी विशेषकर जहाँ जंगल में आग की घटनाएँ बहुत ज्यादा होती थी। इस कमेटी में ग्राम प्रधान, महिला मंगल दल, युवक मंगल के अध्यक्ष, राजस्व एवं वन विभाग के कर्मचारियों को रखा गया है घ इ इसी का नतीजा है कि 2021-22 में जंगल में आग की घटनाओं में 50 फीसदी की कमी हम लाने और इस वर्ष में 20 फीसदी तक लाने में सफल हुए हैं। घ इन कमेटीयों के संचालन के लिए प्रति कमेटी 40 हजार की राशि सरकार द्वारा दी

जा रही है, साथ अच्छा करी करने वाली कमेटीयों को एक लाख की धनराशि से पुरस्कृत भी किया जा रहा है घ इनके बेहतर संचालन के लिए वनों से अतिरिक्त माध्यमों से होने वाली आय का मात्र 10 फीसदी हिस्सा ही सरकार लेगी बाकी सभी राशि वनों के प्रबंधन एवं गाँव की आजीविका बढ़ाने में खर्च किए जाएंगे घ उन्होंने बताया कि मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को भी कम करने के लिए सरकार ने अनेकों प्रयास किए हैं घ एसी घटनाओं में

जनहानि कम से कम हो, उसके लिए विभाग द्वारा वन्यजीव को आदमखोर चिन्हित करने की कार्यवाही को गति दी गयी है जिससे जनहानि की घटनाओं में 61 फीसदी और घायलों की संख्या में 40 फीसदी तक की कमी आई है। वन मंत्री ने बताया कि पहले 25 प्रजाति के वृक्षों को छोड़ कर सभी वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध था, लेकिन हमारी सरकार व्यवहारिक दिक्कों को समझते हुए मात्र 21 वृक्षों को छोड़ कर सभी वृक्षों को काटने की

अनुमति देने जा रही है, जिससे चीड़ का पेड़ भी होगा घ इसी तरह गैरसेण में हुई कैबिनेट में पेड़ काटने के अपराध को जेल की सजा से मुक्त करने के नियम के चलते भूमिफियाओं द्वारा दुरुपयोग की संभावनाओं के मद्देनजर सरकार इसमें संशोधन करते हुए, निजी वन एवं फलों के बगीचों को इससे बाहर करने जा रही है। वन विभाग ग्राम स्तर पर एको डेवलपमेंट कमेटी बनाने जा रही है जो अपने आस पास के जंगलों में हर्बल खेती, लीसा उत्पादन, दूरिस्ट डेस्टिनेसन विकसित कर और अन्य माध्यमों से आय बनकर गाँव के विकास एवं अपनी आजीविका पर खर्च कर सकती है। तकनीकी विभाग की जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा 7 राज्य सरकार के और एक टीएचडीसी के कॉलेज की पी ओ डी के चयनमें पद से विभागीय मंत्री को निकालकर, उनमें 6 कॉलेज को विश्वविधायलय के अधीन कर उन्हें यूनिवर्सिटी कैम्पस बनाया गया है।

वीर अर्जुन संवाददाता
*ब्लड, यूरीन, सीबीसी, ब्लड शुगर, किडनी, लीवर, कॉलेस्ट्रॉल, थायरॉयड सहित लगभग 270 प्रकार की जाँचें होंगी निःशुल्क *सरकार का अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम: एसीएस राधा रतूड़ी देहरादून, । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय कार्मिकों के हित में सचिवालय परिसर में स्थित डिस्पेंसरी में पैथोलॉजीकल कलेक्शन सेन्टर की स्वीकृति देने के साथ ही इसे जल्द से जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए थे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में निःशुल्क पैथोलॉजीकल

परीक्षण हेतु पैथोलॉजीकल कलेक्शन सेन्टर का शुभारम्भ किया। इस पैथोलॉजीकल कलेक्शन सेन्टर में सभी आवश्यक मूलभूत पैथोलॉजीकल जाँचें जिसमें ब्लड, यूरीन, सीबीसी, ब्लड शुगर, किडनी, लीवर, कॉलेस्ट्रॉल, थायरॉयड सहित लगभग 270 प्रकार की जाँचें निःशुल्क की जायेगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय कार्मिकों के हित में सचिवालय परिसर में स्थित डिस्पेंसरी में पैथोलॉजीकल कलेक्शन सेन्टर की स्वीकृति देने के साथ ही निर्देश दिए थे कि इसे जल्द से जल्द शुरू करवाया जाय। एसीएस राधा रतूड़ी ने इसे सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों

की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने बताया कि सरकार की इस पहल से राज्य सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों को लाभ मिलेगा, उनके समय की बचत होगी तथा कार्यस्थल पर ही आवश्यक चिकित्सा सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। सरकार ने अपने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी है तथा प्रदेशभर में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और पहुंच को सरल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। इस अवसर पर अपर सचिव डा० अमनदीप कौर, महानिदेशक स्वास्थ्य डा० विनीता शाह तथा सचिवालय के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।

डीआईटी में होगा चौथा देहरादून साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल

संजय ऑर्थोपीडिक, स्पाइन एवं मैटरनिटी सेंटर को मिली फॉर्गसी की मान्यता

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत एवं डीआईटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जी. रघुराम ने संयुक्त रूप से चौथे देहरादून अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव-2023 के पोस्टर को लॉन्च किया। इस अवसर पर प्रो. दुर्गेश पंत ने बताया कि 03 दिन तक चलने वाला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का यह महोत्सव उत्तर भारत का सबसे बड़ा महोत्सव है। इस वर्ष इस महोत्सव का आयोजन उत्तर भारत के प्रमुख प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डीआईटी विश्वविद्यालय में 27 से 29 अक्टूबर, 2023 में किया जाएगा। प्रो. दुर्गेश पंत ने कहा कि देहरादून अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव अपने आप में एक तरह का अनूठा महोत्सव है। जिसकी शुरुआत 2020 में

यूकोस्ट के संरक्षण और मार्गदर्शन में हुई थी। 03 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में 25 से भी अधिक इवेंट्स का आयोजन किया गया है। जिनमें ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव, एपीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कान्क्लेव, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप कान्क्लेव, बायोकोन, फार्माकोन, हिमालयन एजुकेशन लीडर्स कान्क्लेव व टीचर्स ऑफ द ईयर, कांफ्रेंस ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एपीकल्चर के अलावा छात्रों के लिए साइंस क्विज, मैथ क्विज, साइंस पोस्टर कॉम्पिटिशन, मीट द साइंटिस्ट, एगरोमॉडलिंग वर्कशॉप, इलैक्ट्रॉनिक सर्किट डेवलपमेंट वर्कशॉप, मैजिक ऑफ मैथ, मैजिक ऑफ ऑप्टिकल साइंस, वर्कशॉप ऑन रोबोटिक्स, साइबर सिम्योरिटी, अनमैन्ड एयरो व्हीकल (यूवोवी), ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाइमेट चेंज, साइंस फ़ेशन

शो व आप्टर स्कूल कन्वेंशन आदि इवेंट्स शामिल है। इस अवसर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक विशाल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, स्टार्टअप्स, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में कार्य कर रही कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में एक पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कृषि, मेडिकल आदि विषयों के प्रकाशक भाग लेंगे। प्रदर्शनी में ही एक फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर डीआईटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जी. रघुराम ने कहा कि यह वर्ष 150 से अधिक शिक्षण संस्थानों को इस फेस्टिवल का आयोजन डीआईटी

विश्वविद्यालय परिसर में किया जा रहा है। डीआईटी विश्वविद्यालय की पूरी टीम इस आयोजन को सफल बनाने तथा देहरादून जिले के सभी स्कूलों के छात्रों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विविध आयामों तथा साइंस एवं टेक्नोलॉजी में हो रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रूबरू कराने का प्रयास करेगी। देहरादून साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के समन्वयक एवं यूकोस्ट के संयुक्त निदेशक डा. डी.पी. उनियाल ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लोकप्रियकरण है। इस तरह के आयोजन के माध्यम में नई जैनेरेशन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना प्रमुख उद्देश्य है। पिछले तीन वर्षों में यह प्रयोग बहुत ही सफल रहा। इस वर्ष 150 से अधिक शिक्षण संस्थानों को इस फेस्टिवल के साथ सीधा जोडा जाएगा।

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । संजय ऑर्थोपीडिक, स्पाइन एवं मैटरनिटी सेंटर, जाखन, देहरादून, उत्तराखंड को फॉर्गसी मान्यता प्रमाण प्राप्त हुआ। फेडरेशन ऑफ ऑक्टोपेटिक एण्ड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल सोसाइटी है जो कि अस्पतालों के कार्यों को गुणवत्ता एवं उनके सुधार का समय समय पर आकलन करती रहती है और यह सुनिश्चित करती है कि निजी सुविधाएँ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशासित गुणवत्ता देखभाल मानकों का पालन करें और अपने रोगियों को सुरक्षित और सम्मानजनक देखभाल प्रदान करें। यह पहल डॉक्टर और नर्सों की एक कुशल और संघम टीम बनाने पर केंद्रित है जो कि 16 नैदानिक मानकों के आधार पर गर्भावस्था के हर पहलू को सम्मिलित करती है जिसमें प्रसवपूर्व देखभाल से लेकर प्रसवोत्तर परिवार नियोजन परामर्श तक। इस पहलू के अन्तर्गत प्रशिक्षित नर्सों द्वारा गर्भवती माताओं के आचरण और प्रबंधन के तरीके को सुधाराएँ अंतर लाती है, विशेष रूप से पीपीएफ (प्रसवोत्तर रक्तस्राव), एक्लम्पसिया आदि जैसी जीवन-घातक जटिलताओं के प्रबंधन में। संजय ऑर्थोपीडिक,

स्पाइन एवं मैटरनिटी सेंटर की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ 100 वीमस अचीवर्स ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से सम्मानित डॉ. सुजाता संजय ने कहा कि हमारा अस्पताल एक महिला के जीवन का के सभी चरणों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए समर्पित है। इसलिए हमारे जैसे अस्पताल के लिए जहाँ पहले से ही बहुत से नियम मौजूद थे। मान्यता ने हमें न केवल उन नियमों पर फिर से जोर देने का मौका दिया, बल्कि हम पहले की तुलना में अधिक संगठित हुए और हमें खुद का आत्मनिरीक्षण करने में मदद की। पाठ्यक्रम बहुत व्यापक है और प्रशिक्षण सत्र इस तरह से संरचित है कि सब कुछ सरलता से लेकिन बहुत गहराई से समझाया गया है। कुल मिलाकर यह हमारे नर्सिंग स्टॉफ के लिए एक संतुष्टिदायक कार्यक्रम रहा है और मैं दूसरों को भी काफी प्रशिक्षण से गुजरने की सलाह दूंगी। अस्पताल के निदेशक पदमेश्री से सम्मानित डॉ. बी. के. एस. संजय ने कहा कि किसी भी कार्य को गुणवत्ता कार्यकर्ता की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करती है और कार्यकर्ता की गुणवत्ता उसके शिक्षण एवं प्रशिक्षण पर निर्भर करती है।

कांग्रेस पार्टी को विधायक मदन सिंह बिष्ट के खिलाफ करनी चाहिए सख्त कार्रवाई: भाजपा

वीर अर्जुन संवाददाता
देहरादून, । कांग्रेस पार्टी के द्वाराहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट के बीटी इंजीनियरिंग संस्थान के निदेशक के साथ अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जिसको लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा एक बार फिर से उजागर हुआ है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक मदन सिंह बिष्ट ने

अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है जो एक जनप्रतिनिधि के लिए अशोभनीय है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी के विधायक मदन सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड की नारीशक्ति का भी अपमान किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तर के सैनियर लीडर इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी की क्या नीयत है उनका कहना है

कि कांग्रेस पार्टी में अगर कुछ भी नैतिकता बची है तो तत्काल विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक नजीर पेश करनी चाहिए। उनका कहना है कि उत्तराखंड के लोगों के आचरण के खिलाफ विधायक मदन मदन सिंह बिष्ट का कृत्य है ऐसे में उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ चल रही हैं दूसरी तरफ

पुलिस प्रशासन ने भी इस पूरे मामले में गंभीर रुख अख्यार किया है विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आज पूरे प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक मदन सिंह बिष्ट का पुतला भी फूँका उनके खिलाफ नारेबाजी भी की और आतंश भी जताया है। संस्थान के छात्र-छात्राओं ने भी विधायक के आचरण पर सवाल उठाया है विरोध प्रदर्शन किया है ऐसे में भाजपा ने सख्त तैयार किया है और विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मेले हैं हमारी संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के ध्वजवाहक, पौराणिक मेलों को बचाने की है जरूरत: रेखा आर्या

वीर अर्जुन संवाददाता
*कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया पिथौरागढ़ में आयोजित मोस्टमनू मेले में प्रतिभाग, कहा मेलों से संस्कृति का होता है संरक्षण पिथौरागढ़, । पिथौरागढ़, आमान पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बतौर मुख्य अतिथि मोस्टमनू मेले महोत्सव में प्रतिभाग किया। जहां पर पारंपरिक रूप से स्थानीय महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जहां उन्होंने मोस्टमनू मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया और देव डोली के दर्शन भी किये। जहां इस दौरान आज मंत्री रेखा आर्या ने पिथौरागढ़ के पारंपरिक वेशभूषा को धारण कर सभी का मन मोहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने आयोजकों को उन्हें यहां आमंत्रित करने पर धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें यहां आकर और यहां के पारंपरिक परिधान को धारण कर बेहद खुशी हुई। कहा कि आज हमसबको अपनी संस्कृति को बचाने है तो ऐसे मेले का आयोजन किया जाना बेहद आवश्यक है। साथ ही कहा कि मेले हमारी संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन का काम करते हैं। हमारी देवभूमि के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। आज उन्हें भी यहां की

संस्कृति से रूबरू होने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कुम्भ मेला आयोजित होता है उसी तरह से पिथौरागढ़, के मोस्टमनू में आयोजित मेला भी एक तरह से कुंभ मेला ही है। ही साथ ही इन दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। जिन्हें देख कर मंत्री ने कलाकारों की तारीफ की। कहा की जिस तरह से यहां पर कलाकारों द्वारा लोगों को अपनी संस्कृति व सभ्यता से परिचय कराया गया वह काबिलेतारीफ है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भी हमें अपनी संस्कृति का परिचय प्राप्त होता है। कहा कि हमें अपने कलाकारों का उत्साहवर्धन के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज केंद्र व राज्य सरकार मिलकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में राज्य लगातार उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, इस दिशा में राज्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। कहा कि आज राज्य सरकार व उनका विभाग खिलाड़ियों के लिए और खेल को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएँ चला रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों के

लिए आउट ऑफ टर्न जॉब का जिओ जारी कर दिया है जिससे आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी भी सरकारी सेवाओं में अपनी सेवा देंगे। कहा कि जल्द ही हम 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 38 व राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पूर्व हम 4 प्रतिशत का स्पॉट्स कोटा आरक्षण लागू कर देंगे। खेल मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों व खेल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर है। हमारी कोशिश है कि जिस प्रकार से प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है आने वाले समय में हम इसे खेलों की भूमि के रूप में विकसित करें, विभाग इस और काम कर रहा है। वहीं आज कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व धन्यवाद जताया। कहा कि लंबे समय से यह बिल अधर में लटका हुआ था जिसे की केंद्र की मोदी सरकार ने नारी बंदन विधेयक के रूप में पास किया है। हम सब के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला है और निश्चित ही आने वाले वक में महिलाओं की भागीदारी लोकसभा व राज्य विधानसभा में बढ़ेगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी जी, जिला भाजपा के पदाधिकारी, मातृशक्ति व देवतुल्य जनता उपस्थित रही।

मसूरी के ऐतिहासिक शहीद स्थल में बिजली लाइन कटने का मंत्री जोशी ने लिया संज्ञान

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पहाड़ों की रानी मसूरी का ऐतिहासिक शहीद स्थल में बिजली लाइन कटने की खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल बिजली को सुचारू रूप से निदेश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा मसूरी में स्थित शहीद स्थल सभी का आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा मीडिया के माध्यम से जैसे ही उन्हें जानकारी मिली उन्होंने तत्काल विद्युत विभाग के अधिकारियों तथा एसडीएम मसूरी को तुरंत शहीद स्थल को लाईन को जोड़ने और तत्काल बिजली सुचारू के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा शहीद स्थल को संपत्ति नगर पालिका की है। उन्होंने कहा मसूरी शहीद स्थल को देख रख संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। मंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Shivalik Rasayan Limited
Registered Office: Village Kohupani, P.O. Chandanwari, Dehradun, Uttarakhand-248007, India
Corporate Office Address: 1508, Chiranjiv Tower 43, Nehru Place New Delhi-110019, India
Ph: 011-47589500, CIN: L24237UR1979PLC006041
Website: www.shivalikrasayan.com, E-mail: cs@shivalikrasayan.com

ADDENDUM TO THE NOTICE OF 45TH ANNUAL GENERAL MEETING
Dear Members,
This is in referenceto the Notice of 45th Annual General Meeting dated August 08, 2023 ("AGM Notice") of Shivalik Rasayan Limited ("the Company") to be held on Friday, September 29, 2023 at 12 PM through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (AVM) facility for seeking approval for matters contained in the said notice. The said notice has been duly dispatched to the shareholders of the Company as per the applicable laws.
The Company through this addendum wishes to bring to the notice of the Shareholders of the Company that Dr. Akshay Kant Chaturvedi has been resigned from the Board with effect from September 18, 2023 and he would not offer himself for re-election as an Executive Director at the AGM. Accordingly, an Ordinary Resolution, numbered 04/5 no longer applicable and will not be put forward for consideration and approval by the Shareholders at the AGM.
Accordingly, the Company has issued addendum to the Notice of 45th AGM.
All other particulars and details as mentioned in the AGM Notice shall remain unchanged. The addendum shall be read in conjunction with the AGM Notice dated August 08, 2023 together with explanatory statement. This addendum is also available on the Company's website viz. www.shivalikrasayan.com, and on the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

For Shivalik Rasayan Limited
Sudul Choudhary
(Company Secretary)

Place: New Delhi
Date: September 20, 2023

उत्तर रेलवे
निविदा सूचना
भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियाना / समन्वय / मुरादाबाद द्वारा ई टेंबर निम्न टेंबर संख्या के अर्नागत आमंत्रित किये जाते हैं। विशेष राशि का भुगतान निविदा दाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नई बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, डिमांडिस्ट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टेंबर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

टेंडर संख्या दिनांक 171-DRM-MB-23-24 DATE 19.09.2023

कार्य का नाम सहायक मंडल अभियाना उ० र० हरेदोई - 1 के सेशन में सहायक मंडल अभियाना उ० र० हरेदोई - II का कार्यलय और हरेदोई स्टेशन पर समेहन कर्म में सुधार कार्य।
अनुमानित लागत: 5296745.24 घरोहर राशि: 105900.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह

टेंडर संख्या दिनांक 172-DRM-MB-23-24 DATE 19.09.2023

कार्य का नाम प्रवर मंडल अभियाना हृत्तीय के अधीन उन्नाव-बालागढ़-सीतापुर सेक्शन में 14 नो डब्ल्यू ट्रेड का निर्माण कार्य।
अनुमानित लागत: 13902448.38 घरोहर राशि: 219500.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह

टेंडर संख्या दिनांक 176-DRM-MB-23-24 DATE 19.09.2023

कार्य का नाम प्रवर मंडल अभियाना- हृत्तीय के अधीन MST,MKH,RBD,DLQ & JBG siding पर RGM/Track machine के प्राधान्य के संबंध में अर्लेनिक कार्य।
अनुमानित लागत: 15798070.92 घरोहर राशि: 229000.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह

टेंडर संख्या दिनांक 177-DRM-MB-23-24 DATE 19.09.2023

कार्य का नाम प्रवर मंडल अभियाना- हृत्तीय के अधीन स्टेशनों Dalelnagar (DLQ) राहिमाबाद, Makhi, JangbahaJurgang & Masti की siding पर ट्रेक विधान के लिए RGM/Track machin का कार्य।
अनुमानित लागत: 6003198.87 घरोहर राशि: 120100.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह

टेंडर संख्या दिनांक 178-DRM-MB-23-24 DATE 19.09.2023

कार्य का नाम प्रवर मंडल अभियाना- हृत्तीय के अधीन ट्रेक की सुस्था के दृष्टिकोण से अतिक्रमण से बचाने के लिए हरेदोई स्टेशन के समीप चारदीवारी के निर्माण का कार्य।
अनुमानित लागत: 40005798.75 घरोहर राशि: 350000.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि: 12 माह

टेंडर क्लोसिंग दिनांक / समय 12.10.2023
बिडिंग स्टार्ट तिथि 28.09.2023
आधार की वैधता 60.09.2023

न. 74-W/23/WA/Publication दिनांक 20.09.2023 2926/2023

याहदकी की सेवा में सुरक्षान के साथ

संक्षिप्त समाचार

सार्वधिक डेंगू प्राभावित 24 वार्डों में डेंगू नियंत्रण अभियान को अधिकारियों की तैनाती

देहरादून, वीर अर्जुन संवाददाता। जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम क्षेत्र के सार्वधिक डेंगू प्राभावित 24 वार्डों में डेंगू नियंत्रण अभियान हेतु स्वास्थ्य, नगर निगम तथा अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की गई है। इससे पूर्व आदेश में डेंगू की रोकथाम एवं जनसामान्य में जागरूकता हेतु बुधवार अधिकारियों की तैनाती की गई थी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि डेंगू नियंत्रण महाअभियान के दौरान प्रत्येक आशा कार्यकर्त्री, आशा फॅसिलेटर, कम्प्यूनिटी हेल्थ आफिसर, नगर निगम, सैनट्री, सुपरवाईजर, डेंगू वॉलंटियर द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्रों में प्रतिदिन न्यूनतम 50 घरों में ड्रूपू निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी। एक भ्रमण के दौरान प्रत्येक कार्मिकों द्वारा अपने आवंटित घरों में ऐसे स्थानों जहाँ डेंगू लावा पनप सकते हैं, की सफाई की जायेगी, तथा स्थानीय लोगों को स्वयं भी इस हेतु जागरूक किया जायेगा। जिन स्थानों से पानी नहीं हटवाया जा सकता, उन स्थानों पर लावा साइड का छिड़काव करना होगा। टीम द्वारा स्थानीय लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय हेतु जागरूक किया जाय तथा प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्री वितरित की जाय तथा दैनिक गतिविधियों निर्धारित प्रारूप तथा प्रश्नोत्तरी भरकर प्रत्येक दिन अपने सुपरवाईजर को प्रेषित की जाय। आरबीएस की टीम आशा, जिला समन्वयक, आरबीएस के कॉर्डिनेटर द्वारा सुपरवाईजर के रूप में कार्य किया जायेगा। जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा आवंटित क्षेत्रों का दैनिक रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा दैनिक रूप से जिलाधिकारी को सूचित किया जायेगा। सपरस्त सूचना दैनिक रूप से जिला डेंगू कन्ट्रोल रूम पर जिला आई.डी.एस.पी. टीम द्वारा संकलित की जायेगी।

G20 उत्तर रेलवे
निविदा सूचना
भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियाना / समन्वय / मुरादाबाद द्वारा ई टेंबर निम्न टेंबर संख्या के अर्नागत आमंत्रित किये जाते हैं। विशेष राशि का भुगतान निविदा दाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नई बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, डिमांडिस्ट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टेंबर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

Tender No. Date: 186-DRM-MB-23-24 dt. 19.09.2023

Name of Work Construction of Boundary wall near station HQ/MB and its approach as measure to safeguard track and establishment avoiding encroachment in MB division.

Tender Closing Date Time 12.10.2023 16:00
Advertised Value (Rs.) 4,00,05,798.75
Earnest Money (Rs.) 3,50,000.00
Bidding Start Date 28.09.2023
Period of Completion 08 months

पत्रांक - 75-W/23/WA/Publication दिनांक : 19.09.2023 2921/2023

याहदकी की सेवा में सुरक्षान के साथ

G20 उत्तर रेलवे
निविदा सूचना
भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियाना / समन्वय / मुरादाबाद द्वारा ई टेंबर निम्न टेंबर संख्या के अर्नागत आमंत्रित किये जाते हैं। विशेष राशि का भुगतान निविदा दाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नई बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, डिमांडिस्ट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टेंबर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

टेंडर संख्या दिनांक 171-DRM-MB-23-24 DATE 19.09.2023

कार्य का नाम सहायक मंडल अभियाना उ० र० हरेदोई - 1 के सेशन में सहायक मंडल अभियाना उ० र० हरेदोई - II का कार्यलय और हरेदोई स्टेशन पर समेहन कर्म में सुधार कार्य।
अनुमानित लागत: 5296745.24 घरोहर राशि: 105900.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह

टेंडर संख्या दिनांक 172-DRM-MB-23-24 DATE 19.09.2023

कार्य का नाम प्रवर मंडल अभियाना हृत्तीय के अधीन उन्नाव-बालागढ़-सीतापुर सेक्शन में 14 नो डब्ल्यू ट्रेड का निर्माण कार्य।
अनुमानित लागत: 13902448.38 घरोहर राशि: 219500.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह

टेंडर संख्या दिनांक 176-DRM-MB-23-24 DATE 19.09.2023

कार्य का नाम प्रवर मंडल अभियाना- हृत्तीय के अधीन MST,MKH,RBD,DLQ & JBG siding पर RGM/Track machine के प्राधान्य के संबंध में अर्लेनिक कार्य।
अनुमानित लागत: 15798070.92 घरोहर राशि: 229000.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह

टेंडर संख्या दिनांक 177-DRM-MB-23-24 DATE 19.09.2023

कार्य का नाम प्रवर मंडल अभियाना- हृत्तीय के अधीन स्टेशनों Dalelnagar (DLQ) राहिमाबाद, Makhi, JangbahaJurgang & Masti की siding पर ट्रेक विधान के लिए RGM/Track machin का कार्य।
अनुमानित लागत: 6003198.87 घरोहर राशि: 120100.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह

टेंडर संख्या दिनांक 178-DRM-MB-23-24 DATE 19.09.2023

कार्य का नाम प्रवर मंडल अभियाना- हृत्तीय के अधीन ट्रेक की सुस्था के दृष्टिकोण से अतिक्रमण से बचाने के लिए हरेदोई स्टेशन के समीप चारदीवारी के निर्माण का कार्य।
अनुमानित लागत: 40005798.75 घरोहर राशि: 350000.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि: 12 माह

टेंडर क्लोसिंग दिनांक / समय 12.10.2023
बिडिंग स्टार्ट तिथि 28.09.2023
आधार की वैधता 60.09.2023

न. 74-W/23/WA/Publication दिनांक 20.09.2023 2926/2023

याहदकी की सेवा में सुरक्षान के साथ

वीर अर्जुन
भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियाना / समन्वय / मुरादाबाद द्वारा ई टेंबर निम्न टेंबर संख्या के अर्नागत आमंत्रित किये जाते हैं। विशेष राशि का भुगतान निविदा दाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नई बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, डिमांडिस्ट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टेंबर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

टेंडर संख्या दिनांक 171-DRM-MB-23-24 DATE 19.09.2023

कार्य का नाम सहायक मंडल अभियाना उ० र० हरेदोई - 1 के सेशन में सहायक मंडल अभियाना उ० र० हरेदोई - II का कार्यलय और हरेदोई स्टेशन पर समेहन कर्म में सुधार कार्य।
अनुमानित लागत: 5296745.24 घरोहर राशि: 105900.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह

टेंडर संख्या दिनांक 172-DRM-MB-23-24 DATE 19.09.2023

कार्य का नाम प्रवर मंडल अभियाना हृत्तीय के अधीन उन्नाव-बालागढ़-सीतापुर सेक्शन में 14 नो डब्ल्यू ट्रेड का निर्माण कार्य।
अनुमानित लागत: 13902448.38 घरोहर राशि: 219500.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह

टेंडर संख्या दिनांक 176-DRM-MB-23-24 DATE 19.0